



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2, 2008/माघ 13, 1929

No. 142]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2, 2008/MAGHA 13, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(सीमा एवं उत्पाद शुल्क केन्द्रीय बोर्ड)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय-II)

अधिसूचना

पुणे, 12 दिसम्बर, 2007

सं. 01/2007-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 233(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड (ए) के अधीन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1-7-1994 को जारी अधिसूचना सं. 33/94-सीमा शुल्क(एन.टी.) के अनुसरण में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर-416 202, ताल्लुका हातकनगले, के तलंडगे गाँव के डी-4, डी-4/1 कागल-हातकनगले फाइव स्टार औद्योगिक परिसर को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन शत-प्रतिशत निर्यात लक्ष्यी यूनिट स्थापन करने के लिए वेअर हाऊसिंग स्टेशन के रूप में घोषित कर रही हूँ।

[फा. सं. विजीएन(30)37/तकनीकी ईओयू/पुणे-II/2007]

शोभा एल. चारी, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Excise and Customs)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL
EXCISE-II)

NOTIFICATION

Pune, the 12th December, 2007

No. 01/2007-CUS (N.T.)

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred under Section 9 of the Customs Act, 1962 as delegated *vide* Notification No. 33/94-Cus (NT) dated 1-7-1994 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) of Section 152 of Customs Act, 1962, I, hereby declare premises at D-4, D-4/1, Kagal-Hatkanangale Five Star Indl. Area, Village: Talandage, Tal. Hatkanangale, Kolhapur-416 202, in the State of Maharashtra, as a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up of 100% Export oriented unit.

[F. No. VGN (30)37/Tech. EOU/P.II/2007]

SHOBHA L. CHARY, Commissioner